

कार्यालय नगर परिषद फारबिसगंज

पत्रांक.....

प्रेषक :

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, फारबिसगंज।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार
स्थानीय लेखा परीक्षा, शाखा
समाजिक प्रक्षेत्र -1
वीरचन्द पटेल मार्ग
पटना- 01

फारबिसगंज, दिनांक.....

विषय: — अंकेक्षण, प्रतिवेदन सं० 141/08-09 का अनुपालन प्रतिवेदन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के प्रसंग में कहना है कि फारबिसगंज नगरपरिषद के लेखा वर्ष 2001-02 से 2006-07 तक का किया गया अंकेक्षण का अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या 141/08-09 का अनुपालन प्रतिवेदन संलग्न कर भेजा जाता है।

कृपया प्रतिवेदन स्वीकार किया जाय।

विश्वासभाजन

३० —

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, फारबिसगंज

ज्ञापांक.....०१..... दिनांक.....०१/०१/२०१९

प्रतिलिपि — सरकार के विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, फारबिसगंज

३०/०१/१९

अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0 141 / 2008-09 का अनुपालन प्रतिवेदन
(अंकेक्षण अवधि वर्ष 2001-02 से 2006-07तक)

क्र० सं०	कंडिका संख्या	आपति का प्रकार	अनुपालन	टिप्पणी	आदेश
1	05	अभिलेखों एवं लेखा में त्रुटि एवं नियमित जाँच	भविष्य में अनुपालन किया जाएगा।		
2	6 (क) एवं (ख)	अधिदृश्य - अंतशेष			
		2. बालिका समृद्धि योजना	बालिका समृद्धि योजना का पासबुक एवं लेखा पंजी निर्गत अंकेक्षण में दिखाया गया।		
		3. स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के पासबुक को बनद करना	स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना का तीन खाता दिनांक 28.03.11 को बन्द कर एक खाता बैंक ऑफ बड़ौदा में संचालित है।		
		4. लेखापाल रोकड़ बही एवं बैंक पासबुक का अन्तर-	लेखापाल रोकड़ बही, बैंक पास बुक तथा कोषागार पासबुक की मिलीनी अंकेक्षण के पूर्व कर लिया गया था। मिलानी करने का विवरण निम्न प्रकार है।		
			मार्च 07 में - आरंभ शेष 2091788.86		
			आय प्राप्ति 4984046.85		
				
			7075835.71		
				
			व्यय - 2191005.85		
				
			= 4884229.86		
			बैंक बुक का समाधन विवरणी		
			Balance as per Try A/C	4763076.71	
			Balance as per Bank Book	1225804.71	
			Total	5988861.42	
			Add		

क्र० सं०	कडिका संख्या	आपत्ति का प्रकार	अनुपालन	दिप्पणी	आदेश
			Uncashed cheque		
			<u>Cheque No</u>	<u>Amount</u>	
			249293	600000.00	
			249294	600000.00	
			249295	300000.00	
			Total	1500000.00	
			<u>Deduct</u>		
			By Bank Depositi	600.00	
			<u>Add</u>		
			Excess Deposit	13403.76	
			Challna No 19/30.06.06	500.00	
			Total	13903.76	
			<u>Deduct</u>		
			Uncashed challan		
			<u>Challan No</u>	<u>Amount</u>	
			31	4,09,252.00	
			balance as per Cash Book	4884829.86	
			Add - Uncashed Cheque	1500000.00	
			Total	6384829.86	
			deduct Deposit By Bank(-)	600.00	
			Total	6384229.86	
			Add - Excess Deposit	13903.76	
			Total	6398133.62	
			deduct uncash Challan (-)	409252.00	
			Balance	5988881.62	
			कैश, कोषागार तथा बैंक पास बुक के मिलानी करने पर कोई अन्तर नहीं है।		

क्र० सं०	कॉडिका संख्या	आपत्ति का प्रकार	अनुपालन	टिप्पणी	आदेश
3	07 (1)	रोकड़ बही में वर्ष के अन्त में आय-व्यय की विवरणी तैयार नहीं	आय-व्यय विवरणी का वार्षिक लेखा तैयार है। अगले अंकेक्षण में दिखाया जाएगा।		
	07(2)	एकादश एवं द्वादश वित्त आयोग अनुदान को अलग-अलग खाता में रखना।	एकादश एवं द्वादश वित्त आयोग के अनुदान को अलग-अलग खाता में रखने का निर्देश उपलब्ध नहीं है। प्राप्त अनुदान की राशि अनुदान पंजी में संधारित कर अलग हिसाब रख लिया गया है, जिसे अंकेक्षण दल को दिखाया गया है।		
	7(3)	आई0डी0एस0एम0टी0 योजना का शेष राशि का स्थानान्तरण	आई0डी0एस0एम0टी0 योजना की राशि स्वण जयन्ती खाता में जमा थी। योजना की राशि व्यय के बाद शेष राशि 15700/- ₹0 स्वर्ण जयन्ती खाता से निकासी कर आई0डी0एस0एम0टी0 खाता में स्थानान्तरित कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाएगा।		
	7 (4) (5)	स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना तथा राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास योजना का आय व्यय का मदवार विवरणी तैयार करना	आय-व्यय विवरणी मदवार तैयार कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाएगा।		
	7(6)	ट्रेजरी पासबुक का आरंभ तथा अंतशेष	विगत अंकेक्षण में अनुपालन किया गया है।		
	8 (1)	अनुदान अनुदान का स्वीकृत्यादेश/मूल संचिका इत्यादि को दिखाना।	अंकेक्षण के दौरान, अनुदान पंजी, योजना पंजी/योजना अभिलेख/मापी पुस्त/अभिभव/मास्टर रोल अगले अंकेक्षण में दिखाया जाएगा।		
4	3(2)	अनुदान पंजी का अवशेष राशि 38589/- ₹0	अनुदान पंजी में सभी प्रकार के अनुदान का व्यय विवरणी अंकित है, अगले अंकेक्षण में दिखाया जाएगा।		

42

क्र० सं०	कडिका संख्या	आपत्ति का प्रकार	अनुपालन	टिप्पणी	आदेश
	8(3)	बालिका समृद्धि योजना	इस योजना में शेष राशि के व्यय पर संबंधित पदाधिकारी से दिशा निर्देश प्राप्त कर व्यय किया जायगा या सरकारी खजाने में वापस जमा किया जाएगा। कृत कार्रवाई को अगले अंकेक्षण में दिखाया जायगा।		
	8(4)	स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के स्वीकृत मद से अधिक खर्च	स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना 1997 से प्रारंभ हुई है जिसमें नेहरू रोजगार योजना की शेष राशि स्थानान्तरित की गई। बिहार सरकार नगर विकास विभाग के पत्रांक 272 दिनांक 05.07.10 के निर्देशानुसार अप्रयुक्त मद की राशि को स्थानीय सुविधानुसार अनय मद में खर्च किया गया तथा निर्देशानुसार उपयोगिता प्रमाण पत्र सरकार को भेजा गया। उक्त पत्र की छायाप्रति संलग्न है।		
	8(5)	एकदश वित्त योजना में अधिक व्यय	इस योजना में अधिक व्यय मो० 204392 / --रु० नगरपरिषद कोष से किया गया है। सभी कागजात अगले अंकेक्षण में दिखाया जायगा।		

क्र० सं०	कडिका संख्या	आपत्ति का प्रकार	अनुपालन	टिप्पणी	आदेश
5		विशिष्ट उद्देश्य हेतु अनुदान का विचलन	राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास योजना के सूद की राशि मो० 244887/- रू० का व्यय किया गया। विशेष परिस्थिति में वेतन मद में भुगतान के लिये मो० 1091461/- रू० का किये गये विचलन के विरुद्ध दिनांक 09.0.08 को मो० 591461/- रू० वापस जमा किया गया है। शेष को वापस जमा कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जायगा। जहाँ तक मो० 244887/- मूल्य का प्रश्न है इस संबंध में स्पष्ट करना है कि रा०ग०ब० योजना 2001-02 से 2005-06 तक चली। इस योजना से संबंधित आकस्मिक व्यय का भुगतान नगर परिषद कोष से हुआ। इसी भुगतान को ध्यान में रखते हुये कुछ अन्य कार्य इस योजना की सूद की राशि से आकिस्मकता स्वरूप व्यय किया गया है, जो स्वीकार है।		
6	10	सरकारी ऋण	नगरपरिषद के प्रारंभ काल से ही ऋण पंजी का संधारण किया जाता रहा है। वित्तीय वर्ष 2005-06 से सरकार द्वारा वेतन मद या अन्य मद के लिये ऋण स्वीकृत करना बन्द कर दिया गया है। चूंकि वेतन मद में ही सरकार से अनुदान एवं ऋण प्राप्त हुआ है। इसलिये विनियोग पंजी के स्थान पर अनुदान पंजी में ही अनुदान के साथ ऋण की राशि अंकित कर व्यय दिखाया गया है।		
7	11	शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेस की राशि सरकारी कोष में जमा नहीं	कोष के अभाव में जमा नहीं किया जा सका है। कोष की व्यवस्था कर शीघ्र ही दोनों उपकर की राशि जमा की जायगी।		

क्र० सं०	कंडिका संख्या	आपत्ति का प्रकार	अनुपालन	टिप्पणी	आदेश
	12	कम/जमा नहीं	कुल 13 व्यक्तियों में 12 व्यक्तियों जिम्मे बकाया राशि मो० 209942.65 की वसूली कर ली गई है जो परिशिष्ट (1) एवं (2) में संलग्न है। तथा विगत वर्षों में आये अंकेक्षण दल को दिखाया गया है। अंकेक्षण के दौरान वसूल की गई राशि 51033/- ₹० भी अंकेक्षण दल द्वारा जमा जॉच कर लिया गया है।		
	13	मकान कर	मकान कर से संबंधित मांग एवं वसूली पंजी विहित प्रपत्र में तैयार नहीं था। परन्तु मांग एवं वसूली पंजी सादा पंजी में तैयार था। अब विहित प्रपत्र में मांग एवं वसूली पंजी तैयार कराया जा रहा है जिसे अगले अंकेक्षण में दिखाया जायगा। वसूली के प्रतिशत में पूर्व के अपेक्षा वृद्धि हुई है। फिर भी वसूली का प्रतिशत बढ़ाने का प्रयास जारी है।		
	14	दुकान भाड़ा	दुकान भाड़ा मद में बकाया 244935/- ₹० की वसूली कर ली गई है। जिसकी जॉच विगत अंकेक्षण में किया गया है। दुकान सं० 13, 42, 47, 49 एवं 50 आवंटियों के अभाव में खाली था।		
	15 (i) & (ii)	सैरातों की बन्दोबस्ती की राशि बकाया	बन्दोबस्तधारियों के जिम्मे बकाया राशि 756125/- ₹० की वसूली के लिये सर्टिफिकेट केस दायर करने की कार्रवाई की जा रही है तथा बस पड़ाव की बकाया राशि 539100/- संबंधित व्यक्ति से वसूली के लिये भी सर्टिफिकेट की कार्रवाई की जा रही है।		

क्र० सं०	काडिका संख्या	आपत्ति का प्रकार	अनुपालन	टिप्पणी	आदेश
	15 (iii)	सैरातो की बन्दोबस्ती	फैंसी मार्केट भूमि शुल्क एवं साइकिल निबंधन शुल्क कुल 71500/- रू0 श्री उमाशंकर ठाकुर, संवेदक द्वारा किये गये योजना कार्य के विपत्तों से समायोजन की कार्रवाई की जा रही है। शेष श्री कुन्दन सिंह के जिम्मे बकाया बधशाला की राशि 19000/- रू0 भाउ0 नं0 62 दिनांक 15.06.10 में वसूल कर ली गई हे जिसे विगत अंकेक्षण में दिखा दिया गया है।		
	15 (iv)	फैंसी मार्केट भूमि शुल्क की बन्दोबस्ती	फैंसी मार्केट भूमि शुल्क का बकाया राशि 197000/- रू0 संबंधित व्यक्ति मो0 हेमलाल परवेज, संवेदक के द्वारा किये गये योजना कार्य के विपत्तों से समायोजित कावसूली की कार्रवाई की जा रही है जिसे अगले अंकेक्षण में दिखाया जायगा।		
	15 (v)	बस पड़ाव बन्दोबस्ती (2002-03)	वर्ष 2002-03 के लिये दिनांक 16.08.02 को की गई। प्रथम डका वक्ता एवं द्वितीय डका वक्ता द्वारा डक की राशि जमा नहीं करने पर उनकी जमानत की राशि मो0 रू0 जब्त कर ली गई है तथा तीसरे डक वक्ता श्री मनोहर यादव, पिता - श्री उपेन्द्र यादव के नाम की गई है। चूंकि उक्त डक वित्तीय वर्ष की अवधि साढे चार माह व्यतित हो गई थी तथा विभागीय वसूली में हानि हो रही थी। इसलिये साढे सात माह के लिये बन्दोबस्ती दी गई।		

क्र० सं०	कंडिका संख्या	आपत्ति का प्रकार	अनुपालन	टिप्पणी	आदेश
	15 (vi)	बस पड़ाव बन्दोबस्ती (2006-07)	फंसी मार्केट भूमि शुल्क/साईकिल निबंधन/बस पड़ाव एवं पशुबद्धशाला सिंहत अन्य पंजी कागजात वगैरह दिनांक 10.12.06 को कार्यालय में आग लगने से जल गये जिसका जिक्र अंकेक्षण प्रतिवेदन में किया गया है। जले हुये कागजातों की सूची तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा उनके पत्रांक 661 दिनांक 11.12.06 से जिला पदाधिकारी तथा पत्रांक 662 दिनांक 11.12.06 से थाना प्रभारी को भेजा गया। थाना प्रभारी, फारबिसगंज द्वारा जॉच भी किया गया। परन्तु जॉच प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हो सका। बस पड़ाव की बन्दोबस्ती राशि (1559500 - 1150000) = 409500/- रू० जमा का मिलान कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जायगा।		
	16	राशियों का विलम्ब से जमा करना	भविष्य में अनुसारण किया जायगा। मो० 207300/- जमा की राशि विगत अंकेक्षण में दिखा दिया गया है तथा जमा की गई राशि का जॉच कर लिया गया है।		
	17	अनियमित निकासी	निकासी की गई राशि मो 57500/- संबंधित व्यक्ति श्री उत्पल कुमाद दे, पूर्व कैशियर के द्वारा विविध रसीद से 0 2256 दिनांक 18.02.12 से जमा कर दिया गया है जिसे विगत अंकेक्षण में दिखा दिया गया है।		

क्र० सं०	कडिका संख्या	आपत्ति का प्रकार	अनुपालन	टिप्पणी	आदेश
		दैनिक मजदूरी पर भुगतान	नगर परिषद के सभी कर्मियों सहित सफाई कर्मियों की संख्या निरन्तरण कमी होने तथा सरकार के सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आदेश परिपत्र सं० 3939 दिनांक 20.11.99 से नियुक्ति पर रोक लगने के कारण नगरपरिषद का प्राथमिक कर्तव्य शहर के स्वास्थ्य एवं सफाई का ध्यान रखते हुये समय-समय पर दैनिक मजदूर रखकर सफाई कराने की बाध्यता थी। जिसे किसी भी परिस्थिति में उपेक्षा नहीं की जा सकती थी। अंकेक्षण अवधि में सफाई कर्मियों के स्वीकृत बल 88 के विरुद्ध सफाई कर्मी कार्यरत थे। यानि कि 58 पद खाली था। यह विचारणीय है कि इतनी कम संख्या में बिना दैनिक मजदूर रखने के बिना सफाई कार्य संभवन नहीं था एवं दैनिक मजदूर रखने के अलावे कोई दूसरा विकल्प नहीं था। तत्समय नगरपरिषद अपना पक्ष तत्कालीन अंकेक्षण दल के समक्ष रखा भी था। जिसका जिक्र अंकेक्षण में नहीं दर्शाया गया है।		
	18				
		अधिक भुगतान	प्र०सं० 53/01-02 का कार्य पूरा हो चुका है। चूंकि अंतिम मापी नहीं होने के कारण श्री कृष्णानंद मंडल, अभिकर्ता को स्वीकृत 72500/- ₹० का समायोजन नहीं हो सका। अंतिम मापी सहित मास्टर रोल/ अभिश्रव अगले अंकेक्षण दिखाया जायगा।		
	19				

क्र० सं०	कॉडिका संख्या	आपत्ति का प्रकार	अनुपालन	टिप्पणी	आदेश
	20	अधिक भुगतान	<p>(1) यो० सं० 26/05-06 योजना की राशि 3600/-रु० थी। कार्य समाप्ति पश्चात अभिकर्ता श्री उत्पल कुमार डे, को मो० 35925/-रु० का भुगतान किया गया। परन्तु भूलवश 200/- रु० अग्रिम स्वीकृति के बजाय 20000/- रु० अग्रिम स्वीकृत हो गया। अधिक भुगतान की राशि 18000/- रु० विविध रसीद संख्या 5820 दिनांक 14.08.13 से वसूल किया गया है जिसे अगले अंकेक्षण में दिखाया जाएगा।</p> <p>(2) यो० सं० 05/05-06 का प्रा० राशि मो 122000/-रु० थी। परन्तु तत्कालीन वार्ड आयुक्त के निरीक्षण एवं निर्देश के आलोक में मो 126115/-रु० का कार्य सम्पन्न हुआ तथा उतनी राशि की मापी पुस्त दर्ज किया गया। जिसे सहायक अभियन्ता ने स्वीकार किया। अधिक भुगतान 4115/-रु० जानकारी के अनुसार 10 प्रतिशत कम है। जो स्वीकार्य है। फिर भी अगर अधिक भुगतान माना जा रहा है तो सशक्त स्थायी समिति की बैठक से व्यय को स्वीकृत कराकर अगले अंकेक्षण में दिखाया जायगा।</p> <p>(3) यो० सं० - 25/01-02 की राशि 30000/-रु० थी। जिसके विरुद्ध मापी पुस्त की राशि 29330/-रु० का दर्ज है तथा अधिक भुगतान अभिकर्ता से वसूल कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाएगा।</p> <p>(4) न०पा० यो० सं० - 10/01-02 का प्रा० राशि 28900/-रु० था। संवेदक को 28900/-रु० का भुगतान हुआ है। इसका प्रमाण अगले अंकेक्षण में दिखाया जाएगा।</p>		

क्र० सं०	कडिका संख्या	आपत्ति का प्रकार	अनुपालन	टिप्पणी	आदेश
			<p>(5) न०पा०यो०सं०- 22/02-03 की प्रथम प्रा० राशि 10280/- थी तथा पुनरीक्षित प्राक्कलन की राशि 15684/- रू० जो योजना के कार्य, स्थल के विशिष्टियों के अनुसार थी। पुनरीक्षित प्राक्कलन के आधार पर योजना का कार्य हुआ एवं अभिकर्ता को 14585/- रू० का भुगतान नगर पंचायत की बोर्ड की बैठक दिनांक 26.05.03 के निर्णयानुसार किया गया है। संबंधित प्रमाण अगले अंकेक्षण में दिखाया जाएगा।</p>		
			<p>(6) एकादश वित्त आयोग यो०सं० 22/03-04 का प्रा० राशि 83500/- थी। परन्तु किये गये कार्य के अनुसार विपत्र की राशि 87703/- रू० हो गई। विपत्र की राशि 87703 में से 4203/- रू० घटाकर शेष 83500/- रू० का भुगतान अभिकर्ता को हुआ है। प्रमाण अगले अंकेक्षण में दिखाया जायगा।</p>		
			<p>(7) न०पा०यो०सं० 14/03-04 की प्रा०राशि 8600/- रू० थी। जिसमें संवेदक का लाभ जौड़ा नहीं गया था। इस योजना का कार्यान्वयन संवेदक का 9.09 प्रतिशत जोड़ कर निविदा के माध्यम से कराया गया। एकरारनामा भी 9384/- रू० का था जिसका भुगतान मापी पुस्त के अनुसार 9331/- रू० दिया गया। प्रमाण अगले अंकेक्षण में दिखाया जाएगा। यह विचारणीय है कि लोक निर्माण विभाग या अन्य कार्य विभागों द्वारा निर्गत परिपत्रों के आधार पर प्रा०राशि से भिन्न 10 प्रतिशत अन्तर का भुगतान मान्य है।</p>		

क्र० सं०	कडिका संख्या	आपत्ति का प्रकार	अनुपालन	टिप्पणी	आदेश
21		योजनाओं से संबंधित संचिकायें एवं मापी पुस्त कार्य का प्रस्तुतीकरण	वर्ष 2001-02 से 2006-07 की अवधि की विभिन्न योजनाओं से संबंधित संचिकायें, अभिलेख, मापीपुस्त एवं अभिश्रव अंकेक्षण दल के समक्ष रखे गये थे। समयामाव के कारण जॉच नहीं हो सकी। अगले अंकेक्षण में दिखाया जायगा।		
22		ट्रेक्टर भाड़ा का भुगतान	वर्ष 2001-02 से 2006-07 की अवधि में भुगतान किये गये ट्रेक्टर भाड़ा संबंधी कागजात अगले अंकेक्षण में दिखाया जाएगा। महत्वपूर्ण अवसरों यथा ईद, बकरीद, दशहरा, दिपावली, छठ, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस इत्यादि पर विशेष सफाई अभियान के तहत ट्रेक्टर भाड़ा पर लिया जाता है जो बाजार के भाव के दर से भुगतान होता है।		
23		रसीद बहिया एवं टिनटिकट का अप्रस्तुतीकरण	कुल 11 विविध रसीद में रसीद विगत अंकेक्षण में दिखया गया है। टिनटिन टिकट भी विगत अंकेक्षण दल को दिखया गया है। शेष रसीद बहिया जिसमें विविध रसीद तथा 43 एच0 रसीद अगले अंकेक्षण में दिखाया जाएगा।		
24		अग्रिम	निर्माकित कर्मियों के जिम्मे बकाया अग्रिम की वसूली का विवरण इस प्रकार है।		
	क्र०	नाम	31.03.07 को बकाया राशि	वसूल की गई राशि	शेष राशि
	1	सुरेन्द्र नाथ मिश्र	2018050.00	2005000.00	13050.00
	2	गंगा प्रसाद दास	2025000.00	1425000.00	600000.00
	3	चन्द्रनाथ चंदन	307000.00	307000.00	0.00
	4	उत्पल कुमार दे	279000.00	179000.00	100000.00
	5	हरि प्र मंडल	244500.00	0.00	244500.00
	6	अमरेन्द्र कुमार सिन्हा	218927.00	218927.00	0.00
	7	सत्येन्द्र प्रसाद	102200.00	79700.00	22500.00
		योग	5194677.00	4214627.00	980050.00

क्र० सं०	कंडिका संख्या	आपत्ति का प्रकार	अनुपालन	टिप्पणी	आदेश
			शेष व्यक्तियों से अग्रिम की वसूली की जा रही है जिसे अगले अंकेक्षण में दिखाया जाएगा।		
	25	अभिभ्रव अप्रस्तुत	सभी अभिभ्रव अंकेक्षण दल के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। समयभाव के कारण जॉच नहीं किया जा सका। अगले अंकेक्षण में दिखाया जाएगा।		
	26	अंकेक्षण परिणाम			
	27	कार्यपालक पदों			
	28	सामान्य अभ्युक्ति	अभ्युक्ति में दर्शायी गयी टिप्पणी का अनुसरण किया जाएगा।		

अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0 141/2008-09 की कंडिका 12 के अनुसार
संबंधित व्यक्तियों से वसूली का विवरण

क्र० सं०	कर्मचारी का नाम जिनके द्वारा राशि जमा की गई	अंकेक्षण प्रतिवेदन सं०/वर्ष	बकाया राशि	जमा की गई राशि का विवरण			शेष	अभ्युक्ति
				M.R. No	Date	Amount		
1	श्री उत्पल कुमार डे	141/2008-09 Para - 12	86889.20	944	21.06.11	13642.00		
				945	21.06.11	1872.00		
				2256	18.02.12	57500.00		
					Total	73014.00	शून्य	
2	श्री चन्द्रनाथ चंदन	141/2008-09 Para - 12	51035.65	437	31.03.04	1504.20		
				438	31.03.04	573.60		2803.40 में राशि 573.60 समाहित है।
				Challan No-88	14-12-2018	709.00		
				Challan No-83	05-12-2018	5671.00		
				NR No 1591	28.03.06	315.20		
				470	05.04.11	4019.42		
				471	05.04.11	1459.72		
				MR No 292	01.02.11	27743.00		
				293	01.02.11	1219.00		
				294	01.02.11	3872.52		
				961	21.07.11	3949.59		
					Total	51036.25	शून्य	
3	श्री गंगा प्रसाद दास	141/2008-09 Para - 12	1369.10	2718	12.06.09	1369.10	शून्य	
4	श्री गोपाल सिंह	Do para 15	1250.10	राशि नं0 62	15.06.10	1250.00	शून्य	
		Total	19000.00	राशि नं0 62	15.06.10	19000.00	शून्य	
			20250.10			20250.00		

क्र० सं०	कर्मचारी का नाम जिनके द्वारा राशि जमा की गई	अंकेक्षण प्रतिवेदन सं०/वर्ष	बकाया राशि	जमा की गई राशि का विवरण			शेष	अभ्युक्ति
				M.R. No	Date	Amount		
5	श्री शंकर झा	Do	3500.00	2722	12.06.09	3500.00	शून्य	
6	श्री कृष्णानंद मंडल	141/2008-09 Para - 12	10233.50					जमा का विस्तृत विवरणी परिशिष्ट-"क"
7	श्री मनोज श्रीवास्तव	Do	20527.9	NR No 803	21.09.08	1213.60		
		शिव शंकर तिवारी के नाम की राशि	498.40	591	04.08.04	2001.50		कैशियर कैशबुक के पृ०सं० 111 में दर्ज है।
		Total	1591.00	भा० न० 76	07.06.11	3000.00		वेतन विपत्र से वसूल
			22617.30	76	07.06.11	3000.00		तदेव
				164	14.07.11	3000.00		तदेव
				220	20.08.11	3000.00		तदेव
				360	23.12.11	3000.00		तदेव
				409	21.01.12	3000.00		तदेव
				460	14.02.12	3000.00		तदेव
					Total	24215.10	शून्य	24215.10 - 22617.30 = 1597.80 अधिक जमा राशि अन्य पारा में समायोजित
8	श्री गजेन्द्र सिंह	141/2008-09 Para - 12	1121.80	MR 3242	29.12.09	1121.80	शून्य	
9	श्री गुलाम मुस्तफा		53.80	927	04.06.11	53.80	शून्य	
10	श्री शिव शंकर तिवारी		18369.45	NR NO 770	10.05.08	4292.30		नाजीर रसीद संख्या 770 दिनांक 10.05.08 से जमा। कैशियर कैश बुक के पृ०सं० 103 में दर्ज है।
	श्री मनोज श्रीवास्तव के नाम शेष		2089.40	भा० न० 164	14.07.11	2000.00		वेतन विपत्र से वसूल
				भा० न० 360	23.12.11	10000.00		वेतन विपत्र से वसूल
		Total	16280.05			16292.30	शून्य	

क्र० सं०	कर्मचारी का नाम जिनके द्वारा राशि जमा की गई	अंकेक्षण प्रतिवेदन सं०/वर्ष	बकाया राशि	जमा की गई राशि का विवरण			शेष	अभ्युक्ति
				M.R. No	Date	Amount		
11	श्री सुवेश पासवान		12773.10	भा० न० 361	23.12.11	10000.00	वेतन विपत्र से वसूल	
				भा० न० 76	07.06.11	2000.00	वेतन विपत्र से वसूल	
				भा० न० 164	14.07.11	2000.00	वेतन विपत्र से वसूल	
					Total	14000.00	14000 - 12773.10 = 1226.90 अधिक जमा। अन्य पारा में समायोजित	
12	श्री रावणेश्वर प्रसाद		2819.15	MR No 4530	19.11.10	2819.15	शून्य	शून्य

9/11/19

श्री रावणेश्वर प्रसाद